



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, अगस्त 7—अगस्त 13, 2016, शनिवार/श्रावण 16—श्रावण 22, 1938  
No. 23] NEW DELHI, AUGUST 7—AUGUST 13, 2016, SATURDAY/SRAVANA 16—SRAVANA 22, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ( iii )  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

## भारत निर्वाचन आयोग

### आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2016

आ.अ. 55.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2012 में स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तद्विनिर्दिष्ट बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में अपने नाम के सामने यथादर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा है/रही है या विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा है/रही है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद उक्त विफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करने के उपरान्त निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे की सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

## तालिका

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1	गुजरात राज्य में विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	101— गारिया धार	मकवाना भावनभाई खीमा भाई, स्थान—खाटसुरा तालुक— महुवा जिला— भावनगर	अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		106— गढडा (अ.जा.)	गोहेल गीगाभाई खीमा भाई, नारायण नगर, बर्फ फैक्टरी के समीप, तालुक— लाठी जिला अमरेली	अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		177— वांसदा (अ.ज.जा.)	गरसीया रविन्द्र कुमार ठाकुर भाई स्थान— लिमजार, तालुक— वांसदा जिला— अमरेली	अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
			पटेल अरविन्द भाई कालीदास, स्थान—वेलनपुर, निशाल फालिया, तालुक— चीखली, जिला नवसारी	अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/ईसीआई/आदेश/प्रादेशिक/पश्चिम-1-गुजरात-वि.स./2013]

आदेश से,

वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## ORDER

New Delhi, the 8th August, 2016

**O.N. 55.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2012 in the Gujarat State specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses or failed to lodge the account of his/her election expenses in manner required by law as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission of India is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2012 in Gujarat State.	101-Gariyadhar	Makwana Bhavanbhai Khimabhai, At. Khatsura, Ta. Mahuva, Dist. Bhavnagar.	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.		106-Gadhada(SC)	Gohel Gigabhai Khimabhai, Narayan Nagar, near Ice Factory, Ta. Lathi, Dist. Amreli.	Failed to lodge any account of his election expenses.
3.		177-Vansda(ST)	Garasiya Ravindrakumar Thakorabhai, At. Limzar, Ta. Vansda, Dist. Navsari	Failed to lodge any account of his election expenses.
			Patel Arvindbhai Kalidas, At. Velanpur, Nishal Falia, Ta. Chikhli, Dist. Navsari.	Failed to lodge any account of his election expenses.

[No. 76/ECI/ORD/TERR/WEST-1-Guj-LA/2013]

By Order,

VARINDER KUMAR, Principal Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2016

**आ.अ. 56.**—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य से गुजरात विधानसभा के उप निर्वाचन, 2016 में स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तद्दीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथा—अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में अपने नाम के सामने यथादर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा है/रही है या विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा है/रही है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करने के उपरान्त निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे की सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:—

**सारणी**

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	गुजरात विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2016	168—चोर्यासी	पटेल राजूभाई मणीलाल, ए-202, वजर रेजिडेन्सी, छापरा भाठा, अमरोली, सुरत-394210	अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.			शेख फिरोज यासिन, 92-04, ई इब्ल्यू एस आवास, ए/91 से 120, भेस्ताण, सुरत- 394210	अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/ईसीआई/आदेश/प्रादेशिक/पश्चिम-1—गुजरात—वि.स.(उप)/168/2015]

आदेश से,

वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 8th August, 2016

**O.N. 56.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the Bye Election to the Legislative Assembly, 2016 in the Gujarat State specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses/failed to lodge the account of his/her election expenses in manner required by law as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission of India is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye Election to the Gujarat Legislative Assembly, 2016.	168-Choryasi	Patel Rajubhai Manilal, A-202, Vajr Residency, Chhaprabhatha, Amroli, Surat-394210	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.			Shaikh Firoz Yasin, 92-04, EWS Aavas, A/91 to 120, Bhestan, Surat-394210	Failed to lodge any account of his election expenses.

[No. 76/ECI/ORD/TERR/WEST-1-GUJ-LA(Bye)/168/2015]

By Order,

VARINDER KUMAR, Principal Secy.